



MAYUR UNIQUOTERS LIMITED

Manufacturers of Artificial Leather/PVC Vinyl

Ref: MUL/SEC/2020-21/45

Date: August 06, 2020

To,

BSE Limited
Phirozee Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400 001
Scrip Code: 522249

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G-Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-
400 051
Trading Symbol: MAYURUNIQ

Sub: Notice of Board Meeting- Advertisement

Dear Sir/ Madam,

In continuation to our letter dated August 05, 2020 with regard to the intimation of the Board Meeting scheduled to be held on August 13, 2020, please find enclosed herewith a copy of the advertisement published in the English (Financial Express) and Regional (Nafa Nuksan) newspaper on August 06, 2020.

This is for your information and record.

Thanking You,
For Mayur Uniquoters Limited


Rahul Joshi
Company Secretary and Compliance Officer
ACS33135



A Texture For Every Idea

Correspondance Address:

28th Floor Lakshmi Complex, MI Road, Jaipur-302001 (Rajasthan) India • Tel: +91-141-2241111 • Fax: +91-141-2243433
Regd. Office & Works: Village Jaipur, Jaipur-Sikar Road, Jaipur-303704 (Rajasthan) India • Tel: +91-1423-224001 • Fax: +91-1423-224430
Email: info@mayur.org • www.mayuruniquoters.com



AUTOLINE INDUSTRIES LIMITED AUTO LINE
 Regd. Office: Survey Nos. 313, 314, 320 to 323, Nanekarwadi, Chakan, Taluka Khed, Dist. Pune - 410 501
 Phone: +91 2135 635 865 / 6 | Fax: +91 2135 635 864 / 53 | CIN: L34300PN1996PLC104510
 Website: www.autolineind.com | E-mail id: investorservices@autolineind.com

NOTICE

This Notice is given pursuant to the provisions of Section 124(6) read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and its amendment Rules, 2017 ("the Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs, the Company is required to transfer all the shares in the name of Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Account in respect of which Dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more.

Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has communicated individually to all the Shareholders, at their latest available address registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent of the Company (RTA) whose shares are liable to be transferred to the Demat account of IEPF under the Act and rules on account of unclaimed dividend for Seven Consecutive years or more commencing from the date of declaration of dividend for the FY 2012-13.

The Company has uploaded full details of such shareholders (including folio number / DP ID - Client ID) and shares due for transfer to demat account of IEPF on the website of the Company i.e. www.autolineind.com in the Investor Relations section. Shareholders are requested to verify the details of uncashed dividends and the shares are liable to be transferred to IEPF.

In case the Company does not receive any communication from the respective shareholders by 01/11/2020, the Company shall with a view to complying with the requirements set out in the rules, will transfer the share(s) to the demat account of IEPF as per the procedure stipulated in the rules. Shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the demat account of IEPF, may note that the company would issue duplicate share certificate(s) in lieu of share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to the Demat account of IEPF as per the rules and upon such issue those original share certificate(s) will stand automatically cancelled and deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to the Demat account of IEPF pursuant to the Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact the Company at E-mail id: investorservices@autolineind.com or to the Company's RTA at M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. (Unit: Autoline Industries Limited), Mr. Sandip Pawar, Team Member, Block no. 202, Akshay Complex, Near Ganesh Temple, off Dhole Patil Road, Pune - 411 001, E-mail-id: iepf.shares@linkintime.co.in, Website: www.linkintime.co.in, Ph: (020) 26160084/26161629.

By Order of the Board
For Autoline Industries Limited
 Sd/-
Ashish Gupta
 Company Secretary & Compliance Officer

Pune, August 1, 2020

Registered Office:
 No. 258/A, Bommasandra Industrial Area, Anekal Taluk, Bengaluru- 560 099, Karnataka, India
 Telephone: 080-7122 2222/2129
 Email: investorrelations@narayanahealth.org

Narayana Hrudayalaya Limited
 www.narayanahealth.org
 CIN: L85110KA2000PLC027497

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2020

(₹ in Million, except per share data)

Particulars	Quarter ended 30 June 2020	Year ended 31 March 2020	Quarter ended 30 June 2019
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
Total income from operations	3,981.52	31,515.73	7,821.98
Net profit before tax, exceptional items and share of loss of equity accounted investees	(1,524.24)	1,756.05	440.10
Net profit / (loss) after exceptional items, share of loss of equity accounted investees before tax	(1,534.45)	1,613.05	432.82
Net profit / (loss) after tax, share of loss of equity accounted investees	(1,197.62)	1,190.52	302.83
Total comprehensive income for the period/ year	(1,199.31)	1,237.10	243.71
Paid-up Equity share capital (Face value of ₹ 10 each)	2,043.61	2,043.61	2,043.61
Earnings per share (of ₹ 10 each):			
(a) Basic	(5.90)	5.86	1.49
(b) Diluted	(5.90)	5.86	1.49

2. Extract of Unaudited Standalone financial results of the Company : (₹ in Million, except per share data)

Particulars	Quarter ended 30 June 2020	Year ended 31 March 2020	Quarter ended 30 June 2019
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
Total income from operations	2,871.81	22,634.93	5,651.03
Net profit before tax and exceptional items	(882.88)	1,040.04	323.90
Net profit after exceptional items but before tax	(882.88)	1,040.04	323.90
Net profit for the period/year	(572.04)	677.43	205.85
Total comprehensive income for the period/year	(574.72)	631.43	189.28

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchange website and Company website.

BSE Website : www.bseindia.com
 NSE Website : www.nseindia.com
 Company's website : www.narayanahealth.org

For Narayana Hrudayalaya Limited
 Sd/-
Dr. Emmanuel Rupert
 Managing Director & Group CEO

Place : Bengaluru
 Date : 05-08-2020

ICICI Prudential Asset Management Company Limited
 Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.
Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051.
 Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.icicipruamc.com, Email id: enquiry@icicipruamc.com

Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice-cum-Addendum to the Scheme Information Document (SID)/Key Information Memorandum (KIM) of the Schemes of ICICI Prudential Mutual Fund (the Fund)

I. Change in address of the Official Point of Acceptance of Transactions (OPAT) of ICICI Prudential Asset Management Company Limited (the AMC)

Investors/Unit holders are requested to note the change in address of the OPAT of AMC as follows:

Old Address	New Address	Effective Date
ICICI Prudential Asset Management Company Limited Gowra Plaza, 1 st Floor, No. 1-8-304-307/381/444, S. P. Road, Begumpet, Hyderabad - 500 016, State: Telangana	ICICI Prudential Asset Management Company Limited Ground & First Floor, No: 1-10-72/A/2, Pochampally House, Sardar Patel Road, Begumpet, Hyderabad - 500 016, State: Telangana	August 10, 2020

II. Change in address of the Official Point of Acceptance of Transactions (OPAT) of Computer Age Management Services Limited (CAMS)

Investors/Unit holders are requested to note the change in address of the OPAT of CAMS, the Registrar and Transfer Agent of the Fund, as follows:

Old Address	New Address	Effective Date
CAMS SERVICE CENTRE, Opposite Union Bank of India, Gandhi Road, Moga - 142 001, State: Punjab Contact No: 01636-689092 Email id: camsmog@camsonline.com	CAMS SERVICE CENTRE, 9 No. New town, Opposite Jaiswal Hotel, Daman Building, Moga - 142 001, State: Punjab Contact No: 01636-689092 Email id: camsmog@camsonline.com	August 17, 2020

This Notice-cum-addendum forms an integral part of the SID and KIM of the Schemes of the Fund, as amended from time to time.

All other provisions of the SID and KIM except as specifically modified herein above remain unchanged.

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited
 Place : Mumbai
 Date : August 5, 2020
 Sd/-
Authorised Signatory
 No. 004/08/2020

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.icicipruamc.com

As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id and mobile number to support paper-less communications.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.icicipruamc.com or visit AMFI's website https://www.amfindia.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Mayur Uniquoters Limited
 Regd. Office and Works: Village-Jaipura, Jaipur-Sikar Road, Tehsil-Chomu, Distt. Jaipur-303704 (Raj.) India. Website: www.mayuruniquoters.com
 Email: sec@mayurbiz Tel: 91-1423-224001 Fax: 91-1423-224420
 CIN: L18101RJ1992PLC006952

NOTICE OF BOARD MEETING
Under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, August 13, 2020 at 1.30 P.M. through Video Conferencing, inter alia, to consider and approve the un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended on June 30, 2020 and to take on record Limited Review Report thereon.

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.mayuruniquoters.com and also on the website of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

By the Order of the Board
 For Mayur Uniquoters Limited
Rahul Joshi
 Company Secretary & Compliance Officer
 Membership No. A33135

Date: August 05, 2020
 Place: Jaipur

VRL LOGISTICS LIMITED
 Regd. Office: RS No. 351/1, Varur, Post Chhabbi, Taluk Hubballi, District Dharwad, Hubballi, (Karnataka) – 581 207
 (18th KM, NH-4, Bengaluru Road, Varur)
 Tel: 0836 2237607, Fax: 0836 2237614 Email: investors@vrllogistics.com
 CIN: L60210KA1983PLC005247 Website: www.vrlgroup.in

NOTICE OF BOARD MEETING

In accordance with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company (02/2020-21) is scheduled on August 14, 2020, to inter alia, consider, approve and take on record the reviewed un-audited financial results for the quarter ended June 30, 2020.

This information is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com), where the Company's shares are listed and also available on the website of the Company (www.vrlgroup.in).

This notice is being given in compliance with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

For VRL LOGISTICS LIMITED
ANIRUDDHA PHADNAVIS
 COMPANY SECRETARY
 AND COMPLIANCE OFFICER

Date: 05.08.2020
 Place: Hubballi

Reliance Industrial Infrastructure Limited
 Regd. Office: NKM International House, 5th Floor, 178 Backbay Reclamation, Behind LIC Yogakshema Building, Babubhai Chinal Road, Mumbai - 400 020
 Phone: 022-4477 9053 • Fax: 022-4477 9052 • E-mail: investor_relations@riil.in
 CIN: L60300MH1988PLC049019

NOTICE
 (for the attention of Equity Shareholders of the Company)

Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund Authority

This notice is issued pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("the Rules").

The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of all shares, in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more, in the name of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has, so far, transferred to IEPF Authority, on respective due dates, all shares in respect of which dividend(s) for the financial year 2011-12 or before had remained unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years or more. The Company has, vide its letter and email dated April 10, 2020, communicated individually, the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority during the financial year 2020-21 for taking appropriate action.

The Company has uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF Authority on its website at www.riil.in. Shareholders are requested to refer to the web-link http://www.riil.in/transfer_suspense_account.html to verify the details of unclaimed dividends and the shares liable to be transferred to IEPF Authority.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed under the Rules.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of dematerialisation and transfer of shares to IEPF Authority as per the Rules and upon such issue, the original certificate(s) which stands registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website shall be deemed to be adequate notice in respect of issue of new certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority pursuant to the Rules.

Pursuant to the provisions of the Rules, and keeping in view the relaxation provided by IEPF Authority due to COVID-19 related lockdown, vide General Circular No. 18/2020, dated April 13, 2020, in case the Company does not receive any communication (claiming the unclaimed / uncashed dividend) from the concerned shareholders on or before September 15, 2020, the Company shall with a view to complying with the requirements set out in the Rules, dematerialise and transfer the shares to IEPF Authority by way of corporate action as per procedure stipulated in the Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact Shri S. P. Venugopal, General Manager, KFin Technologies Private Limited, Company's Share Transfer Agent at Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032; Tel: +91-40-6716 1708; Fax: +91-40-6716 1680; Toll Free No.: 1800-425-8998 (From 9:00 a.m. to 6:00 p.m.); Email: riilnkm@kfintech.com; Website: www.kfintech.com.

For Reliance Industrial Infrastructure Limited
 Sd/-
Shalish Dholakia
 Company Secretary & Compliance Officer

Place : Mumbai
 Date : August 05, 2020
 www.riil.in

RUBFILA International Limited
 CIN L25199KL1993PLC007018

Regd. Office: New Indl. Dev. Area, Menonpara Road, Kanjikode, PALAKKAD - 678 621, Kerala.
 Phone No. 0491 2567261 - 64, e-Mail: rubfila@gmail.com

Extract of Unaudited Financial Results For the Quarter Ended 30th June 2020
 Standalone / Consolidated Results (₹ in Lakhs)

Sl. No	Particulars	Standalone Results			Consolidated Results		
		Quarter ended 30.06.2020	Year Ended 31.03.2020	Corresponding Quarter ended 30.06.2019	Quarter ended 30.06.2020	Year Ended 31.03.2020	Year Ended 31.03.2019
1)	Total Income from Operations (net)	3,262.01	22,993.16	6,119.72	4,294.23	26,274.42	
2)	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional Items)	115.56	1,997.56	697.91	235.49	2,248.10	
3)	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional Items)	115.56	1,997.56	697.91	235.49	2,248.10	
4)	Net Profit / (Loss) for the period after Tax	88.03	1,503.73	497.19	125.16	1,687.40	
5)	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit & Loss for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax))	88.03	1,513.01	497.19	125.16	1,565.31	
6)	Equity Share Capital (Face Value Rs.5/-)	2,473.38	2,473.38	2,360.88	2,473.38	2,473.38	
7)	Reserves (Excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of Previous Year)*						
8)	Earnings Per Share -EPS (of Rs.5/- each) (for Continuing operations)						
a)	Basic	0.18	3.19	1.05	0.25	3.30	
b)	Diluted	0.18	3.14	1.05	0.25	3.25	

Notes :-
 1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Website of the Stock Exchange, and on Company's Website (www.rubfila.com).
 2) The Unaudited Standalone / Consolidated financial results of the company for the quarter ended 30th June, 2020 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 03rd August, 2020. The statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion on the Standalone / Consolidated results then ended.
 3) The Consolidated financial results of the quarters ended June 30, 2020 and March 31, 2020, and year to date result of March 31, 2020, includes the financial results of its subsidiary M/s Premier Tissues India Limited. The financial results of the quarter ended June 30, 2019 includes the financial results of M/s Premier Tissues India Limited (Joint Venture Company) consolidated under equity Method.
 4) Financial results for all the periods presented have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time.
 5) The Company continues to monitor the impact of Covid-19 on its business, including its impact on customers, supply chain, employees and logistics. Due care has been exercised, in concluding on significant accounting judgements and estimates, including in relation to recoverability of receivables, investments and inventory, based on the information available to date, while preparing the Company's financial results as of and for the quarter ended June 30, 2020.
 6) The company has only one reportable business segment viz. 'Latex Rubber Thread' and its subsidiary also has one reportable business segment viz. 'Paper Tissue'.
 7) The number of Investor Complaints pending at the beginning of the quarter was nil. No complaints were received during the quarter and no complaints were pending at the end of the quarter.
 8) The figures for the quarter ended 31 March, 2020 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures upto nine months ended 31 December 2019.

For and on behalf of Board of Directors :
RUBFILA INTERNATIONAL LTD
 Sd/-
G. KRISHNA KUMAR
 Managing Director

Place : Palakkad
 Date : 03-08-2020

Nippon India Mutual Fund
 Wealth sets you free (Formerly Reliance Mutual Fund)

Nippon Life India Asset Management Limited
 (formerly known as Reliance Nippon Life Asset Management Limited)
 (CIN - L65910MH1995PLC220793)

Registered Office: 4th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganapatrao Kadam Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400 013.
 Tel No. +91 022 6808 7000 • Fax No. +91 022 6808 7097 • www.nipponindiaamf.com

NOTICE CUM ADDENDUM NO. 43

Changes in the directorship on the Board of Nippon Life India Asset Management Limited ("NAM India")

a. Mr. Ashvin Parekh has been appointed as an Independent Director on the Board of NAM India w.e.f August 01, 2020. His details are as follows:

Name	Age / Qualification	Brief Experience
Mr. Ashvin Parekh	67 Years/ B.Com (Hons), FCA, AICWA, ACS, Exec MBA- INSEAD	Mr. Ashvin Parekh is a qualified Chartered Accountant and has set up the advisory service company – Ashvin Parekh Advisory Services LLP (APAS) in the areas of providing services to the Boards and the management of the financial services sector companies. Mr. Parekh retired as a Senior Partner from Ernst & Young in June 2013 and was with EY for 8 years. Earlier Mr. Parekh was the Executive Director of Deloitte Touche Tohmatsu India Pvt. Ltd. From July 2002 till June 2005. Mr. Parekh has also held senior positions in Arthur Anderson, Price Waterhouse Coopers, KPMG India, KPMG UK, KPMG Dubai and Hindustan Lever Ltd. Mr. Parekh has worked in the United Kingdom, Dubai, Australia, Germany and the US on Partner secondment programs for about 11 years outside of India. He is registered with the World Bank and the Asian Development Bank as an expert in the financial services sector. He has worked on gamut of areas like business strategies, corporate planning, institutional strengthening and business transformation across industries including banking, insurance, pension and capital markets. He has been a member of several committees set up by the Ministry of Finance, RBI, IRDA and SEBI. He is also a member of industry bodies and associations namely CII, FICCI and ASSOCHAM.

b. Mr. Mahadevan Veeramony, Independent Director on the Board of NAM India, has resigned w.e.f. August 01, 2020.

Accordingly, the para titled "INFORMATION ABOUT SPONSOR, AMC AND TRUSTEE COMPANIES" of the Statement of Additional Information ("SAI") shall stand modified.

This addendum forms an integral part of the SAI of Nippon India Mutual Fund and all the other terms and conditions of the aforesaid document read with the addenda issued from time to time will remain unchanged.

For NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LIMITED
 (formerly known as Reliance Nippon Life Asset Management Limited)
 (Asset Management Company for Nippon India Mutual Fund)
 Sd/-
Authorised Signatory

Mumbai
August 05, 2020

Make even idle money work! Invest in Mutual Funds

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Sf SUNDARAM FINANCE HOLDINGS

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2020
 (₹ in Lakhs)

Particulars	Standalone				Consolidated			
	Quarter ended 30.06.2020	Quarter ended 31.03.2020	Quarter ended 30.06.2019	Year ended 31.03.2020	Quarter ended 30.06.2020	Quarter ended 31.03.2020	Quarter ended 30.06.2019	Year ended 31.03.2020
Total income from operations	883.90	3615.85	1506.53	9247.95	1511.41	3552.96	1431.53	9255.61
Net Profit / (Loss) after Tax	284.78	2789.82	880.84	6138.87	(988.64)	2782.49	1090.58	7813.49
Total comprehensive income for the period [comprising profits / (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(10552.27)	(9585.09)	(15296.84)	(48382.61)	(12368.23)	(8793.14)	(15403.20)	(46281.33)
Equity Share Capital	7555.19	7555.19	7555.19	7555.19	7555.19	7555.19	7555.19	7555.19
Reserves (Excluding Revaluation reserves)				116500.67				178171.08
Earnings Per Share (Basic & Diluted) (Face Value of ₹5/- each) (not annualised)	0.19	1.85	0.58	4.06	(0.65)	1.84	0.72	5.17

The above results do not include any extraordinary item.

Notes:
 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the National Stock Exchange website (URL:www.nseindia.com) and on the Company's website (www.sundaramholdings.in).
 2. The above results were approved by the Board of Directors at its meeting held on August 4, 2020

Chennai
 04.08.2020

SUNDARAM FINANCE HOLDINGS LIMITED
 CIN: L65100TN1993PLC025996
 Regd. Office : 21, Patulos Road, Chennai – 600 002. Tel: 91 44 28521181 Fax: 91 44 28586641
 E-Mail: investorservices@sundaramholdings.in Website : www.sundaramholdings.in

By Order of the Board
 T. T. Srinivasaraghavan
 Chairman

